

एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशंस (प्रा.) लिमिटेड (एसबीआईआईएमएस) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अच्छी दृश्यता, पर्याप्त बिजली व पानी सहित सभी सुविधाओं से सुसज्जित विशेष रूप से भू तल पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में या बैंक की जरूरत के अनुसार परिसर को संशोधित/निर्माण करने को तैयार परिसर/प्लॉट के मालिकों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। परिसर में पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र अग्रभाग में होना चाहिए। इच्छुक परिसर/प्लॉट के मालिकों/पावर ऑफ अर्टानी धारक जो बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित/परिवर्धन और परिवर्तन की पेशकश करने के लिए सहमत हैं, उन्हें तकनीकी बोली और मूल्य बोली के आधार पर बैंक के निर्धारित प्रारूप में दो मुहरबंद लिफाफों में "तकनीकी बोली" और "मूल्य बोली" लिखकर भारतीय स्टेट बैंक, चंडीगढ़ के पक्ष में (वापसी योग्य) 20,000/- और एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशंस (प्रा.) लिमिटेड चंडीगढ़ के पक्ष में (गैर वापसी योग्य) 5,000 रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट के साथ निविदा प्रकाशन के 15 दिन के भीतर अपने पेशकश जमा करवाएं। तकनीकी बोली और मूल्य बोली का प्रारूप हमारी अधिकारिक वेबसाइट <http://www.sbi.co.in> में "procurement news" से डाउनलोड किया जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस में बैंकिंग समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी/शाखा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। "procurement news" के तहत हमारी वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड किए गए प्रारूप के अलावा किसी भी प्रारूप में कोई बोली मान्य नहीं होगी। ड्राफ्ट, साईट प्लान, स्वामित्व का सबूत, नियम और शर्तों के साथ प्रस्ताव तकनीकी बोली लिफाफे में रखा जाना चाहिए। प्रति वर्ग फुट क्षेत्र के न्यूनतम स्वीकार्य िकराया मूल्य बोली के लिफाफे में रखा जाना चाहिए। देर से या अपूर्ण प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां/सरकारी विभागों को प्राथमिकता दी जाएगी। एसबीआई/एसबीआईआईएमएस के पास बिना किसी कारण बताएं किसी भी/सभी प्रस्तावों या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

शाखा/कार्यालय	ज़िला	पसंदीदा स्थान	न्यूनतम विद्युत कनेक्शन	क्षेत्र भू-तल (वर्ग फुट में लगभग)	न्यूनतम अग्रभाग (लगभग)
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय - II (50972)	पंचकुला, हरियाणा-134109	फाउंटेन चौक, यमुनानगर से बस स्टैंड, यमुनानगर के समक्ष (वर्क शॉप रोड)	75-100 KW	9500 sqft to 10000 sq feet (approx) GF+FF	60 feet

सर्कल हेड: एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशंस (प्रा.) लिमिटेड
एसबीआई, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भू-तल, सैक्टर-17-ए, चंडीगढ़
दिनांक

क्षेत्रीय प्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-II,
पंचकुला, हरियाणा
दूरभाष: 0172-2563357